

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY ARE PROPOSED TO BE LISTED ON THE MAIN BOARD PLATFORM OF BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").



Our Company was incorporated as "Kross Manufacturers (India) Private Limited", as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated May 9, 1991, issued by the Registrar of Companies, Bihar at Patna. Thereafter, the Registered Office of our Company was changed from 214, Ashiana Centre Adityapur, Jamshedpur – 831013 to M-4, Phase VI, Gamharia, Adityapur Industrial Area, Jamshedpur – 832108, Jharkhand, India. Subsequently, the name of our Company was changed from "Kross Manufacturers (India) Private Limited" to "Kross Private Limited" pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies Jharkhand at Ranchi dated September 26, 2016. Further, the name of our Company was changed upon conversion from a private limited company "Kross Private Limited", to a public limited company "Kross Limited" pursuant to a special resolution passed by our shareholders on January 13, 2017 and a fresh certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies Jharkhand at Ranchi dated January 17, 2017. For further details of change in name and Registered Office of our Company, please refer to the section titled "History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company" and "History and Certain Corporate Matters – Changes in the Registered Office of our Company" both on page 228 of the RHP.
Corporate Identity Number: U29100JH1991PLC004465; Registered Office and Corporate Office: M-4, Phase VI, Gamharia, Adityapur Industrial Area, Jamshedpur – 832108, Jharkhand, India. Contact Person: Debolina Karmakar, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 0657 2203812. E-mail: investors@krossindia.com; Website: www.krosslimited.com



(Please scan this QR code to view the Red Herring Prospectus)

OUR PROMOTERS: SUDHIR RAI, ANITA RAI, SUMEET RAI AND KUNAL RAI

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 5,000.00 MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH BY OUR COMPANY AGGREGATING UP TO ₹ 2,500.00 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ 2,500.00 MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 1,680.00 MILLION BY SUDHIR RAI, UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 820.00 MILLION BY ANITA RAI (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

DETAILS OF THE OFFER FOR SALE BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS

NAME OF SELLING SHAREHOLDER	TYPE	NUMBER OF EQUITY SHARES OFFERED / AMOUNT (IN ₹ MILLION)	WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION OF EQUITY SHARES (IN ₹ PER EQUITY SHARE)*
Sudhir Rai	Promoter Selling Shareholder	Up to [●] equity shares of face value ₹ 5 each aggregating up to ₹ 1,680.00 million	1.91
Anita Rai	Promoter Selling Shareholder	Up to [●] equity shares of face value ₹ 5 each aggregating up to ₹ 820.00 million	1.69

*As certified by M/s S.K. Naredi & Co., Chartered Accountants by way of their certificate dated September 2, 2024.

We are a player focused on manufacturing and supply of trailer axle and suspension assembly and critical parts for medium and heavy commercial vehicles and farm equipment segments.

The Offer is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations
QIB Portion: Not more than 50% of the Offer | Non-Institutional Portion: Not less than 15% of the Offer | Retail Portion: Not less than 35% of the Offer

PRICE BAND: ₹ 228 TO ₹ 240 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹5 EACH.

THE FLOOR PRICE AND THE CAP PRICE ARE 45.60 TIMES AND 48.00 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES, RESPECTIVELY.

THE PRICE TO EARNINGS RATIO ("P/E") BASED ON BASIC AND DILUTED EPS FOR FINANCIAL YEAR ENDED 2024 FOR THE COMPANY AT THE UPPER END OF THE PRICE BAND IS AS HIGH AS 28.92 TIMES AND AT THE LOWER END OF THE PRICE BAND IS 27.47 TIMES AS COMPARED TO THE AVERAGE INDUSTRY PEER GROUP P/E RATIO OF 24.85.

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 62 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 62 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ASBA[#]

Simple, Safe, Smart way of Application!!!

*Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to Issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA. Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

In accordance with the recommendation of the committee of Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated September 03, 2024 the above provided price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the 'Basis for Offer Price' section beginning on page 128 of the RHP vis-a-vis the weighted average cost of acquisition ("WACA") of primary and secondary transaction(s), as applicable, disclosed in 'Basis for Offer Price' section on page 128 of the RHP.

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION AND PURCHASE IN THE OFFER, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RHP AND THE TERMS OF THE OFFER, INCLUDING THE MERITS AND RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

In relation to Price Band, potential investors should only refer to this price band advertisement for the Offer and should not rely on any media articles/reports in relation to the valuation of our Company as these are not endorsed, published or confirmed either by our Company or by the BRLM.

RISKS TO INVESTORS

(For details refer to section titled "Risk Factors" on page 27 of the RHP.)

1. Customer concentration risk – Our top five customers contributed more than 66.00% in each of the previous three Fiscals of our revenues. The loss of a major customer or reduction in demand for our products from any of our major customers may adversely affect our business, financial condition, results of operations and prospects.

Fiscal 2024		Fiscal 2023		Fiscal 2022	
Amount (₹ in million)	% of revenue from operations	Amount (₹ in million)	% of revenue from operations	Amount (₹ in million)	% of revenue from operations
4,095.19	66.02%	3,340.95	68.37%	2,096.27	70.47%

2. End-user industry risk – Demand for our products is linked to growth and trends in sales of vehicles by our customers. Decline in sales of our customers may adversely affect the demand for our products which in turn would adversely impact our business, financial condition, results of operations and prospects.

(in ₹ million, except percentages)

Projects	Fiscal 2024		Fiscal 2023		Fiscal 2022	
	Amount (in ₹ million)	% of total revenue from operations	Amount (in ₹ million)	% of total revenue from operations	Amount (in ₹ million)	% of total revenue from operations
Medium and heavy commercial vehicles	5,512.06	88.87%	4,043.46	82.75%	2,230.92	75.00%
Farm Equipment	559.60	9.02%	592.73	12.13%	546.52	18.37%
Other Component/ Service	130.85	2.11%	250.10	5.12%	197.11	6.63%
Total	6,202.50	100.00%	4,886.28	100.00%	2,974.55	100.00%

3. Product concentration risk – We derive a portion of our revenue from the sale of trailer axle and suspension assemblies and truck components. Any reduction in demand for our key products on account of regulatory changes or changes in technologies including but not limited to shift in renewable/green energy would have a material adverse effect on our business, financial condition, results of operations and cash flows.

Projects	Fiscal 2024		Fiscal 2023		Fiscal 2022	
	Amount (in ₹ million)	% of total revenue from operations	Amount (in ₹ million)	% of total revenue from operations	Amount (in ₹ million)	% of total revenue from operations
Trailer axle and suspensions	2,690.50	43.38%	1,628.22	33.32%	668.96	22.49%
Truck components	2,821.56	45.49%	2,415.24	49.43%	1,561.96	52.51%
Total	5,512.06	88.87%	4,043.46	82.75%	2,230.92	75.00%

4. Lack of long-term contracts – We do not have firm commitment agreements with our customers. If our customers choose not to source their requirements from us, there may be a material adverse effect on our business, financial condition, cash flows and results of operations.

5. Inventory management risk – If we fail to accurately predict the demand for our products or if customers vary or cancel production orders, we may incur costs associated with excess inventory, including towards raw material charges, elongated working capital cycle and storage costs, any or all of which can adversely impact our financial results, profitability and future prospects.

Particulars	Fiscal 2024	Fiscal 2023	Fiscal 2022
Inventory (₹ in million)	835.18	621.96	413.72
Inventory days	49	46	51
Inventory turnover ratio	7.43	7.86	7.19

Notes: Inventory turnover ratio = turnover / inventory

6. Objects of the Fresh Issue for which the funds are being raised have not been appraised by any bank or financial institution and any variation in the utilization of our Net Proceeds as disclosed in the Red Herring Prospectus would be subject to certain compliance requirements, including prior shareholders' approval.

7. Our Company will not receive any proceeds from the Offer. The Promoter Selling Shareholders shall be entitled to proceeds from the Offer for Proceeds.

8. Raw material sourcing risk – We depend on a limited number of third parties for the supply of raw materials and failure by our suppliers to meet their obligations may cause change in availability and cost of raw materials which may adversely affect our business, financial condition, results of operations and prospects.

Continued on next page...

...continued from previous page.

We purchase steel required for our manufacturing facilities in India primarily through purchase orders raised on our suppliers and do not have any long term contracts or arrangements with our steel suppliers. Our top three suppliers of steel in each of Fiscal 2024, Fiscal 2023 and Fiscal 2022, accounted for 40.60%, 44.22% and 53.33% of our overall raw material purchases.

9. Raw material price risk – Change in availability and cost of steel, our primary raw material may adversely affect our business, financial condition, results of operations and prospects.

Particulars	Fiscal 2024		Fiscal 2023		Fiscal 2022	
	Amount (in ₹ million)	% of cost of raw materials purchased	Amount (in ₹ million)	% of cost of raw materials purchased	Amount (in ₹ million)	% of cost of raw materials purchased
Cost of Steel Sourced from Suppliers	2,057.54	54.31%	1,767.11	57.17%	1,052.78	66.23%

10. Geographical market concentration risk – Nearly all of our revenues from operations are derived on sales made within India (more than 98.00% in Fiscal 2024 and more than 99.00% in each of Fiscal 2023 and Fiscal 2022). Our business is therefore significantly affected by fluctuations in general economic activity in India.

11. Weighted average return on net worth for Fiscals 2024, 2023 and 2022 is 28.18%.

12. Average cost of acquisition of shares for the Promoters and the Promoter Selling Shareholders.

The average cost of acquisition of Equity Shares for the Promoters and Selling Shareholder is as set out below:

Name	Number of Equity Shares held	Average cost of acquisition per Equity Share on a fully diluted basis (in ₹)*
Promoters		
Sudhir Rai [#]	31,200,140	1.91
Anita Rai [#]	15,199,816	1.69
Sumeet Rai	3,800,000	0.95
Kunal Rai	3,492,000	0.58

* As certified by M/s S.K. Naredi & Co., Chartered Accountants by way of their certificate dated September 2, 2024.

[#] Also, a Promoter Selling Shareholder

13. The determination of the Price Band is based on various factors and assumptions and the Offer Price of the Equity Shares may not be indicative of the market price of the Equity Shares after the Offer. Further, the current market price of some securities listed pursuant to certain previous issues managed by the Book Running Lead Manager is below their respective issue prices.

14. Our price to earnings ratio based on the diluted EPS for fiscal 2024 for the issuer at the upper end of the Price band is as high as 28.92

15. The BRLM associated with the Offer has handled 14 public issues in the past three financial years, out of which 4 issue have closed below the offer price on the listing date.

Name of the BRLM	Total Public Issues	Issues closed below the IPO Price on listing date
Equirus Capital Private Limited	14	4

BID/OFFER PERIOD

ANCHOR INVESTOR BID/OFFER PERIOD : FRIDAY, SEPTEMBER 06, 2024

BID/OFFER OPENS ON : MONDAY, SEPTEMBER 09, 2024*

BID/OFFER CLOSES ON : WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024[#]

* Our Company, in consultation with the BRLM, may consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/ Offer Period shall be one Working Day prior to the Bid/ Offer Opening Date, that is Friday, September 6, 2024.

[#] UPI mandate end time and date shall be at 5:00 p.m. on the Bid/ Offer Closing Date.

An indicative timetable in respect of the Offer is set out below:

Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):

Bid/Offer Period (except the Bid/Offer Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. IST
Bid/Offer Closing Date*	
Submission of electronic applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) - For Retail Individual Bidders and Eligible Employees	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST
Submission of electronic applications (Bank ASBA through Online channels like internet banking, mobile banking and Syndicate UPI ASBA applications where Bid Amount is up to ₹0.50 million)	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of electronic applications (Syndicate non-retail, non-individual applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST
Submission of physical applications (Bank ASBA)	Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST
Submission of physical applications (Syndicate non-retail, non-individual applications) where Bid Amount is more than ₹0.50 million	Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST
Modification/ revision/cancellation of Bids	
Upward revision of Bids by QIBs and Non-Institutional Bidders categories [#]	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date
Upward or downward revision of Bids or cancellation of Bids by Retail Individual Bidders and Eligible Employees	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST on Bid/ Offer Closing Date

* UPI mandate end time and date shall be 5:00 p.m. on the Bid/ Offer Closing Date.

[#] QIBs and Non-Institutional Bidders can neither revise their bids downwards nor cancel/withdraw their Bids.

Bid / Offer Period

Event	Indicative Date
Bid/ Offer Closing Date*	Wednesday, September 11, 2024
Finalisation of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange	On or about Thursday, September 12, 2024
Initiation of refunds (if any, for Anchor Investors)/unblocking of funds from ASBA Account	On or about Friday, September 13, 2024
Credit of Equity Shares to demat accounts of Allottees	On or about Friday, September 13, 2024
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges	On or about Monday, September 16, 2024

^(*) Our Company, in consultation with the BRLMs, may consider participation by Anchor Investors. The Anchor Investor Bid/ Offer Period shall be one Working Day prior to the Bid/Offer Opening Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations

^(*) UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm IST on Bid/ Offer Closing Date, i.e. Wednesday, September 11, 2024.

THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY WILL GET LISTED ON MAIN BOARD PLATFORM OF BSE AND NSE

	UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and Non - Institutional Investor applying for amount upto ₹ 5,00,000/-, applying through Registered Brokers, DPs and RTAs. UPI Bidder also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020, issued by the Central Board of Direct Taxes and the subsequent press releases, including press releases dated June 25, 2021 and September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.
ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Investors in the Retail Portion; (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹ 500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 370 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA bid-cum-application forms can be downloaded from the websites of the Stock Exchanges and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=35 and https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=43 , respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in . UPI Bidders Bidding using the UPI mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. HDFC Bank Limited and Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the BRLM on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and mail id: ipo.upi@npci.org.in .	

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Syndicate Member and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", and such portion, "QIB Portion") provided that our Company may, in consultation with the BRLM, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million; and (b) two third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders. Further, not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, please refer to the section titled "Offer Procedure" on page 370 of the RHP.

Bidders/ Applicants should ensure that DP ID, PAN, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/ Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorised the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February

13, 2020 and press release dated June 25, 2021, read with press release dated September 17, 2021 and CBDT circular no.7 of 2022, dated March 30, 2022 read with press release dated March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our Company, please see the section "History and Certain Corporate Matters" on page 228 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 417 of the RHP.

LIABILITY OF THE MEMBERS OF OUR COMPANY: Limited by shares

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of the RHP, the authorised share capital of the Company is ₹ 370,000,000 divided into 70,000,000 Equity Shares of face value ₹ 5 each and ₹2,000,000 Preference Shares of face value of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is ₹ 270,463,780 divided into 54,092,756 Equity Shares of face value ₹ 5 each. For details, please see the section titled "Capital Structure" on page 88 of the RHP.

NAMES OF SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: The initial signatories to the Memorandum of Association of our Company are Sudhir Rai and Anita Rai, who each subscribed to 100 Equity Shares of face value of ₹100 each. For details of the share capital history of our Company, please see the section titled "Capital Structure" on page 88 of the RHP.

LISTING: The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Stock Exchanges. Our Company has received 'in-principle' approvals from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to their letters, each dated March 1, 2024. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and a signed copy of the Prospectus will be filed with the RoC in accordance with Sections 26(4) and 32 of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Offer Closing Date, please refer to the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 417 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities or the offer document. The investors are advised to refer to page 348 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of SEBI.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE : It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Red Herring Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Red Herring Prospectus. The investors are advised to refer to page 351 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE) : It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 351 of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 27 of the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
		Debolina Karmakar M-4, Phase VI, Gamharia, Adityapur Industrial Area, Jamshedpur - 832108, Jharkhand Telephone: +91 0657 2203812; E-mail: investors@krossindia.com
Equirus Capital Private Limited 12 th Floor, C Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 Maharashtra, India Tel: +91 22 4332 0734; E-mail: kross.ipo@equirus.com Website: www.equirus.com ; Investor grievance e-mail: investorsgrievance@equirus.com Contact person: Malay Shahi/ Mrunal Jadhav; SEBI Registration No.: INM000011286	KFin Technologies Limited Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222; E-mail: krosslimited.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com ; Investor grievance e-mail: einward.ns@kfintech.com Contact person: M.Murali Krishna; SEBI registration no.: INR000000221	Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer-related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

Continued on next page...

...continued from previous page.

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the section titled “Risk Factors” on page 27 of the RHP, before applying in the Offer. A copy of the RHP shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Company at www.kotaklimited.com and on the website of the RHP, i.e. Equinix Capital Private Limited at www.equinix.com.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLM and the Registrar to the Offer at www.krosslimited.com, www.equirus.com and www.kfintech.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORMS: Bid cum Application Forms can be obtained from the Registered Office of **KROSS LIMITED**, Tel: +91 0657 2203812; **BRILM:** Equinox Capital Private Limited, Tel: +91 22 4332 0734 and at the select locations of the Sub-syndicate Members (as given below), SCSBs, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Offer. ASBA Forms will also be available on the websites of BSE and NSE and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available at the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

Sub-Syndicate Members: Axis Capital Limited, HDFC Securities Limited, ICICI Securities Limited, Nuvama Wealth and Investment Limited, Sharekhan Limited

Syndicate Member: Equirus Securities Private Limited

Public Offer Account Bank: Axis Bank Limited • **Sponsor Bank:** Axis Bank Limited and HDFC Bank Limited


UPI: UPI bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

KROSS LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions or other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP dated September 2, 2024 with the RoC and thereafter with the Stock Exchanges. The RHP will be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, in the websites of the Stock Exchanges, i.e., the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.krosslimited.com, and on the website of the BRLM, i.e., Equirus Capital Private Limited at www.equirus.com. Any potential investor should note that investment in equity shares under the RHP involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section entitled "Risk Factors" on page 27 of the RHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision and instead should place reliance on the RHP.

This announcement does not constitute an offer of the Equity Shares for sale in any jurisdiction including the United States, and the Equity Shares may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States.

Adfactors 30X

 <p>Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME</p>	<p align="center">सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड विक्रयित कार्यालय : प्लॉट नं. 492, अठरा विंग, फेज-3, बुधवारवाड़ा, हरिद्वार-122016 पंजीकृत कार्यालय : स्टाॅल नं. 48, अठरा अग्रज, आनारपुर काशीगंज सोनभद्र, आनारपुर, बॉर्ड दिल्ली-110033</p>							
	<p align="center">आग वसुधा</p>							
<p>प्रभुप्रतिष्ठा हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 3 (1) के साथ प्रवृत्त तालिपति परिसरनिर्माण के प्रभुप्रतिष्ठाकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रभुप्रतिष्ठा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ 13(2) के अंतर्गत। अयोध्यासमर्पणन से सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तालिपति परिसरनिर्माण के प्रभुप्रतिष्ठाकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रभुप्रतिष्ठा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उत्तराखण्ड अधिनियम) के अंतर्गत और प्रभुप्रतिष्ठा हित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 3 के साथ प्रवृत्त उत्तराखण्ड का धारा 13(12) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उत्तरा अधिनियम के साथ 13(2) के अंतर्गत मान अनुमति 24-08-2024 निगम की ओर, लिखित निर्माणसिद्धि क्रमचर्चा(सी) (उत्तरा खण्डचर्चा(सी)) को उद्देश्य निमित्त संवर्धित मान वसुधामु(सी), एडवोकेट जैश्वी भी दिया गया है।</p> <p>न केवल तालिपति का, प्रभुप्रतिष्ठा करने को वसुधा का है। उपरोक्त के अंतर्गत, जलद्वारा उत्तरा खण्डचर्चा(सी) को एच वरुण, सुवर्णित किया जाता है कि ये वरुण सुरुवा के 60 दिवसी के अंदर वसुधा निर्माणित 24-08-2024 से पहले इसका निर्माणित देय राशि का, उत्तरा खण्डचर्चा(सी) का निर्माणित देय राशि का प्रभुप्रतिष्ठा/अवरोध, बिना कोई, के साथ प्रवृत्त वसुधामु(सी) के अंतर्गत भूवासापरमाणु, निर्माणित तालिपति से लेकर के भूवासा एवं/अवसा वसुधामु(सी) की स्थिति तथा उत्तरा मान वसुधामु(सी) में विवरणनिगमावली मानुषी व्याज के साथ भूवासा कर नई। ब्राउन के नियम प्रभुप्रतिष्ठाण की प्रभुप्रति के रूप में निर्माणसिद्धि परिसरनिर्माण को क्रमशः उत्तरा खण्डचर्चा(सी) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास वसुधामु(सी) किया गया है।</p>	<p align="center">प्रभुप्रतिष्ठा परिसरनिर्माण (वसुधामु प्रवर्तन)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रमांक(सी) / धार/र(सी) के नाम</th><th>मांग सुरुवा</th><th>प्रभुप्रतिष्ठा परिसरनिर्माण (वसुधामु प्रवर्तन)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</td><td>प्रभुप्रतिष्ठा संख्या 803, जो वसुधामु संख्या 11-और 102 की 12 आठवीं मंजूर एवं, आठवां विंग, मालवीय नगर, चण्डपुर, निर्माण क्रमांक 982 मंजूर, मंजूर के विवरण, निगमावली परिसरनिर्माण है - पुनर्-निर्माण परिसर का वसुधामु, परिधि-सैटि संख्या 811-10, उत्तर-र, वसुधामु - सैटि (दिनांक- 07.08.2018 को, दक्षिण - 1, 2018/03/01 के 4402, पुराने सं. 9 क. सं. 1, 2018/03/01 के 10628 के अंतर्गत पंजीकृत है।</td></tr> <tr> <td>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</td><td>खसरा क्रमांक 98 खसरा 37000 हेक्टर 0700 वर्ग मीटर सैटि वसुधामु मान 14591 नीचे वरुण, ग्राम सुरुवा तिथि - 24.08.2024, निर्माण क्रमांक 982 मंजूर, मंजूर के विवरण, निगमावली परिसरनिर्माण है - पुनर्-निर्माण परिसर का वसुधामु, परिधि-सैटि संख्या 811-10, उत्तर-र, वसुधामु - सैटि (दिनांक- 07.08.2018 को, दक्षिण - 1, 2018/03/01 के 4402, पुराने सं. 9 क. सं. 1, 2018/03/01 के 10628 के अंतर्गत पंजीकृत है।</td></tr> </tbody> </table>	क्रमांक(सी) / धार/र(सी) के नाम	मांग सुरुवा	प्रभुप्रतिष्ठा परिसरनिर्माण (वसुधामु प्रवर्तन)	मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024	प्रभुप्रतिष्ठा संख्या 803, जो वसुधामु संख्या 11-और 102 की 12 आठवीं मंजूर एवं, आठवां विंग, मालवीय नगर, चण्डपुर, निर्माण क्रमांक 982 मंजूर, मंजूर के विवरण, निगमावली परिसरनिर्माण है - पुनर्-निर्माण परिसर का वसुधामु, परिधि-सैटि संख्या 811-10, उत्तर-र, वसुधामु - सैटि (दिनांक- 07.08.2018 को, दक्षिण - 1, 2018/03/01 के 4402, पुराने सं. 9 क. सं. 1, 2018/03/01 के 10628 के अंतर्गत पंजीकृत है।	मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024	खसरा क्रमांक 98 खसरा 37000 हेक्टर 0700 वर्ग मीटर सैटि वसुधामु मान 14591 नीचे वरुण, ग्राम सुरुवा तिथि - 24.08.2024, निर्माण क्रमांक 982 मंजूर, मंजूर के विवरण, निगमावली परिसरनिर्माण है - पुनर्-निर्माण परिसर का वसुधामु, परिधि-सैटि संख्या 811-10, उत्तर-र, वसुधामु - सैटि (दिनांक- 07.08.2018 को, दक्षिण - 1, 2018/03/01 के 4402, पुराने सं. 9 क. सं. 1, 2018/03/01 के 10628 के अंतर्गत पंजीकृत है।
क्रमांक(सी) / धार/र(सी) के नाम	मांग सुरुवा	प्रभुप्रतिष्ठा परिसरनिर्माण (वसुधामु प्रवर्तन)						
मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024	प्रभुप्रतिष्ठा संख्या 803, जो वसुधामु संख्या 11-और 102 की 12 आठवीं मंजूर एवं, आठवां विंग, मालवीय नगर, चण्डपुर, निर्माण क्रमांक 982 मंजूर, मंजूर के विवरण, निगमावली परिसरनिर्माण है - पुनर्-निर्माण परिसर का वसुधामु, परिधि-सैटि संख्या 811-10, उत्तर-र, वसुधामु - सैटि (दिनांक- 07.08.2018 को, दक्षिण - 1, 2018/03/01 के 4402, पुराने सं. 9 क. सं. 1, 2018/03/01 के 10628 के अंतर्गत पंजीकृत है।							
मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024	खसरा क्रमांक 98 खसरा 37000 हेक्टर 0700 वर्ग मीटर सैटि वसुधामु मान 14591 नीचे वरुण, ग्राम सुरुवा तिथि - 24.08.2024, निर्माण क्रमांक 982 मंजूर, मंजूर के विवरण, निगमावली परिसरनिर्माण है - पुनर्-निर्माण परिसर का वसुधामु, परिधि-सैटि संख्या 811-10, उत्तर-र, वसुधामु - सैटि (दिनांक- 07.08.2018 को, दक्षिण - 1, 2018/03/01 के 4402, पुराने सं. 9 क. सं. 1, 2018/03/01 के 10628 के अंतर्गत पंजीकृत है।							
<p>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</p>	<p>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</p>							
<p>प्लॉट नंबर सी-11 और सी-12</p>	<p>रु.</p>							
<p>आठवां विंग मालवीय नगर, बड़ी मजिस्ट, प्लॉट नंबर 803, मालवीय नगर एरसी।</p>	<p>(रुपये और लाखों दो हजार नवसय, अठरा, वसुधामु, हरीन- वसुधामु, राधाचरण- 301024, फोन नं - 9785075016</p>							
<p>अन्य धारा : दिल्ली गैर केवहा, कालू चालू चिह्न, गिरि, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>8/8/2024 के अनुसार</p>							
<p>बड़ी मजिस्ट, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</p>							
<p>प्लॉट नंबर सी-11 और सी-12</p>	<p>रु.</p>							
<p>आठवां विंग मालवीय नगर, बड़ी मजिस्ट, प्लॉट नंबर 803, मालवीय नगर एरसी।</p>	<p>(रुपये और लाखों दो हजार नवसय, अठरा, वसुधामु, हरीन- वसुधामु, राधाचरण- 301024, फोन नं - 9785075016</p>							
<p>अन्य धारा : दिल्ली गैर केवहा, कालू चालू चिह्न, गिरि, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>8/8/2024 के अनुसार</p>							
<p>बड़ी मजिस्ट, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</p>							
<p>प्लॉट नंबर सी-11 और सी-12</p>	<p>रु.</p>							
<p>आठवां विंग मालवीय नगर, बड़ी मजिस्ट, प्लॉट नंबर 803, मालवीय नगर एरसी।</p>	<p>(रुपये और लाखों दो हजार नवसय, अठरा, वसुधामु, हरीन- वसुधामु, राधाचरण- 301024, फोन नं - 9785075016</p>							
<p>अन्य धारा : दिल्ली गैर केवहा, कालू चालू चिह्न, गिरि, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>8/8/2024 के अनुसार</p>							
<p>बड़ी मजिस्ट, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</p>							
<p>प्लॉट नंबर सी-11 और सी-12</p>	<p>रु.</p>							
<p>आठवां विंग मालवीय नगर, बड़ी मजिस्ट, प्लॉट नंबर 803, मालवीय नगर एरसी।</p>	<p>(रुपये और लाखों दो हजार नवसय, अठरा, वसुधामु, हरीन- वसुधामु, राधाचरण- 301024, फोन नं - 9785075016</p>							
<p>अन्य धारा : दिल्ली गैर केवहा, कालू चालू चिह्न, गिरि, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>8/8/2024 के अनुसार</p>							
<p>बड़ी मजिस्ट, नागर, राधाचरण- 301024</p>	<p>मांग सुरुवा तिथि : 24.08.2024</p>							
<p>प्लॉट नंबर सी-11 और सी-12</p>								


बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 CIN: L31300DL1985PLC022737
 पंजीकृत कार्यालय: एफ-3, मेन रोड शास्त्री नगर, दिल्ली-110052
 फोन: 011-23651691 / 92 / 93
 ई-मेल: investorrelations@bansalwire.com वेबसाइट: www.bansalwire.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)
के माध्यम से आयोजित होने वाली 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय सूचना 10/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिचय सूचना 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिचय सूचना 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिचय सूचना 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिचय सूचना 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, परिचय सूचना 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिचय सूचना 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022, परिचय सूचना 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिचय सूचना 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 के साथ परिचय कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम") तथा इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम 2012 द्वारा जारी परिचय सूचना SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिचय सूचना SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिचय सूचना SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिचय सूचना SEBI/HO/CFD/Pd82/P/IR/2023/34 दिनांक 5 जनवरी 2023 और परिचय सूचना SEBI/HO/CFD/CFD/Pd82/P/IR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 द्वारा बहक "परिचय" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सामान्य 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:00 बजे (भा.मा.सू.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवस्था का संचालन किया जा सके। 39वाँ एजीएम का अनुमतिपत्र स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वृत्ति 39वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की कार्ययम स्थल पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त परिचयों के अनुपालन में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 39वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना, निरास समय में, केवल उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिसका ई-मेल पता उनके संबंधित वीडियो/ऑडियो प्रतियोगियों ("डीपी") के पास मौजूद है। चूंकि कंपनी की संपूर्ण संयोजकता डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इसलिए सदस्य एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के लिए 05 सितंबर, 2023 से पहले संबंधित वीडियो/ऑडियो के साथ अपनी ईमेल-आइडी अपडेट कर सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट (एजीएम की सूचना सहित) की भौतिक प्रतियां मेम्बेन की आवश्यकता को उपर्युक्त परिचयों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, कोई सदस्य हमें investorrelations@bansalwire.com पर लिखकर सूचना की हार्ड/सॉफ्ट कॉपी की मांग कर सकता है। 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bansalwire.com, ट्विटर एकाउंट [@bansalwire](https://twitter.com/bansalwire) और www.bnsindia.com और www.bnsindia.com और अंतर्गत संचालित वीडियो/ऑडियो लिंकेडिन ("एक्सप्रेसडिडल") के वीडियो

[illegible][illegible]

ILD इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड

एन्जीकृत कार्यालय एमजीएस हाउस, 4/17-बी, आराफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
 फोन: +91 11 45250070, फैक्स नंबर: +91 11 45634347
 वेबसाइट: www.indialease.com, ई-मेल: info@indialease.com
 CIN:L74899DL1984PLC019218, GSTIN:07AACI0149R1ZB

39वीं वार्षिक आम बैठक, रिवोट

ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के सदस्यों को 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.30 बजे एन्जीकृत कार्यालय यानी एमजीएस हाउस, 4/17-बी, आराफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अथवा ऑडियो विडियुल साधनों ('ओवीपीएम') के माध्यम से कारोबार करने के लिए एक आम स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जैसा कि 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रमों मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 को (एमसीए द्वारा इस संबंध में जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पढ़ें) (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा जाता है)। कंपनी को 30 सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीपीएम के माध्यम से एजीएम बुलाने की अनुमति है। तदनुसार कंपनी की एजीएम वीसी/ओवीपीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी ने 39वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक रिपोर्ट 03 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिन्हें ईमेल पते कंपनी/आरएटी/डीपी के पास एन्जीकृत है।

उपर्युक्त दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.indialease.com पर "वार्षिक रिपोर्ट" अनुभाग (<https://www.indialease.com/AnnualReports23-24-New.html>) के अंतर्गत और स्कैन एक्सेस की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और स्टैंडल डिवाइजिंग्स सर्विसज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य केवल VC/OAVM सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियत करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि एजीएम VC/OAVM द्वारा आयोजित की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान:

पंजी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में 'रिमोट ई-वोटिंग' की सुविधा प्रदाता कर रही है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। तदनुसार, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

1. रिमोट ई-वोटिंग सोमाग्र, 23 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति 25 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी और एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओवीपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं है। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और वे वीसी/ओवीपीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों के नाम "कट-ऑफ तिथि" यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को डिवाइजिंग्स द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने या एजीएम में वोट करने के हक्दार होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को कंपनी की पुस्तका इक्विटी शेयर फुंजी के उनके शेयरों के अनुरूप हो होंगे।

मौखिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते रजिस्टर्ड और शेयर ट्रांसफर एजेंट (RTA) के पास rtat@alankit.com पर ईमेल भेजकर एन्जीकृत करना करें।

बुक क्लोजर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सीसी (LODR) दिशानिर्देश, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से गुरुवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

ई-वोटिंग की प्रक्रिया 39वीं एजीएम के नोटिस के नोटस के साथ-साथ सदस्यों को भेजे गए ईमेल में भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग के समय में यदि कोई प्रश्न/शिकायत है, तो हमें helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ईमेल के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है या 18002109911 पर कॉल किया जा सकता है।

बोर्ड के आदेश से

इंडिया लीज डेवलपमेंट लिमिटेड के लिए
रोहित प्रधान

दिनांक: नई दिल्ली 23 सितंबर, 2024	प्रबंधक, कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी और सीएसओ - 1366ए एसीएस - 3193ए
--------------------------------------	--

42

वोट डालने और एजीएम में भाग लेने का तरीका

सभी सदस्यों को 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग (39वीं एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (39वीं एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान की जाएगी। रिमोट एजीएम और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश 39वीं एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

सदस्य केवल वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से 39वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। वीसी/ओपीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनिर्णय की धारा 103 के तहत कोष की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी/ओपीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश 39वीं एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य 022-4886 7000 पर एनएसडीएल की वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री फेल्वी म्हात्रे से संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या कंपनी के कम्पनी सचिव और अनुपाल अधिकारी को investorrelations@bansalwire.com पर ई-मेल लिख सकते हैं।

ई-मेल प्राप्त और अन्य विवरण पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका

डिमेंट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल पते, बैंक खाते, डाक पते में परिवर्तन और मोबाइल नंबर आदि के विवरण अपने संबंधित डीपी के पास पंजीकृत/अपडेट करें। डीपी के पास पंजीकृत ई-मेल पते का उपयोग सभी संचार में करने के लिए किया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है।

पंक्षल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/—

दिनांक: 03 सितंबर, 2024
स्थान: नई दिल्ली

सुमित गुप्ता
कंपनी कम्पनी और अनुपाल अधिकारी

[illegible]

सह-उपायकर्ता		खसरा नंबर 236, चक्र नंबर 198, गांव बिदापुर, जोदन पार्क, पंखा रोड, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली - 110059 और इसकी सीमाएं:		आईएनआर 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) आईएनआर 10,00,000/- (रुपये दस हजार मात्र)	बजेट से सुबह 11.30 बजे 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ
1. श्री आशीष कुमार रोजड़ा	इस्की ओर ऐसे पंचायी मात्र) ऋण खाता	2020088651 तक	07/06/2024 तक		
2. श्री गंगा साहू					
3. श्रीमती संतोष देवी					

ई-नीलामी की नियम एवं शर्तें:

- नीलामी बोली दर्स्तावेज की आगे की शर्तों और नियमों के अनुसार तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली दर्स्तावेजों, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति के विवरण और बोली प्रपत्र के लिए अर्का फिनकेप लिमिटेड की वेबसाइट (www.arkaholdings.com) और हमारे विक्री एवं विपणन तथा ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट auctions.inventon.in पर जा सकते हैं, जिसे ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा,
- सभी इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को उपरोक्त वेब पोर्टल auctions.inventon.in पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा पूर्वांक तिथि और समय पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क बनाना होगा।
- किसी भी पूछाछ, जानकारी और संपत्ति के निरीक्षण, समर्थन, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे विक्री और विपणन और ई-नीलामी सेवा भागीदार इन्वेंटन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहक सेवा वितरण (सीएसडी) विभाग से टेलीफोन नंबर: + 91 9029086321 / 9833478718 और ई-मेल आईडी: care@inventon.net या manoj.das@inventon-net या अधिकृत अधिकारी, shantanu.dorlikar@arkaholdings.com के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार संपत्ति/संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले मार, ई-नीलामी पर रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/देय के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन सुरक्षित ऋणदाता/अधिकृत अधिकारी की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भार के साथ बेचा जा रहा है जो सुरक्षित ऋणदाता/अधिकृत अधिकारी को ज्ञात नहीं है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लैनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा,
- ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक क्रेता/बोलीदाताओं को विधिवत भर हुए बोली फॉर्म की हार्ड कॉपी अर्का फिनकेप लिमिटेड, तीसरी मार्गल, संपत्ति संख्या बी 36, जेआलुक्कास प्लेयरों के ऊपर, पूसा रोड, मेठ्रो पिलर नंबर 125, नई दिल्ली, दिल्ली - 110005 में सुरक्षित लैनदार के कार्यालय की शाखा में जमा करनी होगी। साथ ही, ऊपर उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति के ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण 'अर्का फिनकेप लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आस्टीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निम्नलिखित खाते के विवरण में जमा करना होगा: ए. खाते का नाम: अर्का फिनकेप लिमिटेड बी. बैंक का नाम: आईसीसीआई बैंक लिमिटेड सी. बैंक का पता: सीजी रोड, अहमदाबाद जी. बैंक खाता संख्या: 032305006479 ई. आर्टिफिकल कोड : आईसीआईसी0001367 पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास पते का प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-स्थापित प्रतियों के साथ 29 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले जमा करें।
- संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। सफल क्रेता/उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी पूरी होने के 24:00 घंटे के भीतर ऊपर बताए गए खाते में आस्टीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से अपनी पेशकश का 25%प्रतिशत (ईएमडी सहित) जमा करना होगा, ऐसा न करने पर विक्री विफल मानी जाएगी और उक्त सफल बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- ई-नीलामी में सफल न होने वाले अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेंगा।
- सफल क्रेता/बोलीदाता को खरीद प्रतिक्रिफ की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की 'बिक्री की पुष्टि' की तिथि से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार लिखित रूप में तय की गई विस्तारित अवधि तक देय होगी। चूंकि ऐसी स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी।
- अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच है। ई-नीलामी के किसी भी चरण में, प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकता है या ई-नीलामी को स्थगित कर सकता है। यदि कोई बोली अस्वीकृत हो जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए किसी भी प्रस्तुत या इच्छुक बोलीदाता या अन्य पक्षां के साथ बातचीत कर सकता है।
- सफल क्रेताबोलीदाता को लागू कानून के अनुसार संपत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए भुगतान किए जाने वाले किसी भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा,
- विक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन है,
- कुल ऋण बकाया राशि ऋण फौजदारी राशि नहीं है। अन्य सभी शुल्क (यदि कोई हो) ऋण बंद होने के समय गणना किए जाएंगे।
- सुरक्षित लैनदार/अधिकृत अधिकारी ऊपर बताए गए अनुसार संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी 'जहां' है, जैसी है', 'जो है', जैसी है'और 'कोई सहारा नहीं' की शर्त के आधार पर की जाएगी।
- बिक्री समय-समय पर संशोधित वित्तीय आँकड़ों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। बिक्री को अस्वीकृत कराना पूरी तरह से सफल बोलीदाता/क्रेता की जिम्मेदारी होगी। स्टॉप लूट्टी, पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण शुल्क और उपरोक्त संपत्ति की बिक्री के पंजीकरण के संबंध में किसी भी अन्य खर्च और शुल्क से संबंधित सभी खर्च सफल बोलीदाता/क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। बिक्री को जल्द से जल्द पंजीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा खरीदार को पंजीकरण में देरी का कारण बताते हुए सुरक्षित लैनदार के अधिकृत अधिकारी को अनुरोध पत्र देना होगा,
- इच्छुक बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता या स्वयं या उनके विधिवत् अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ई-नीलामी/बिक्री कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा प्रमाणित पत्र बोली दर्स्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है,
- विशेष निर्देश: ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मैसर्स इन्वेंटन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुरक्षित ऋणदाता की ओर से पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर आयोजित की जाएगी, जबकि बोलीदाता अपने घर/कार्यालय/बोली के स्थान से अपनी पसंद के अनुसार आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य पर बोली लगाएंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामान की आवश्यकताओं को बोलीदाताओं द्वारा स्वयं सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से) बोलीदाताओं की एकमत जिम्मेदारी होगी और न तो सुरक्षित ऋणदाता का अधिकृत अधिकारी और न ही इन्वेंटन इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। हालाँकि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए बोली लगाने/अपनी बोली में सुधार करने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान:- दिल्ली
दिनांक:- 04 / 09 / 2024

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
अर्का फिनकेप लिमिटेड